

This question paper contains 4 printed pages.

Your Roll No.

No. of Ques. Paper : 7892

HC

Que Paper Code : 52417605

**Name of Papers : Financial Markets and
Institutions**

Name of Course : B.Com : DSE – 3

Semester : VI

Duration : 3 hours

Maximum Marks : 75

**(Write your Roll No. on the top immediately
on receipt of this question paper.)**

**(इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिये गये निर्धारित
स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिये।)**

**NOTE:— Answers may be written either in English or in
Hindi; but the same medium should be used
throughout the paper.**

**ध्यान:— इस प्रश्नपत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी किसी एक
भाषा में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही
होना चाहिए।**

**All questions are compulsory
All questions carry equal marks.**

**सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।**

*2nd
year*

P. T. O.

1. "Financial system of any country and its economic development are interdependent." Do you agree with this statement? Explain.

"किसी देश की वित्तीय प्रणाली एवं इसका आर्थिक विकास परस्पर निर्भर हैं।" क्या आप इस सिद्धान्त से सहमत हैं? 15 (a)

Or (अथवा)

Do you agree that Indian financial sector is a well developed financial system? Explain.

क्या आप सहमत हैं कि भारतीय वित्तीय क्षेत्र एक भली प्रकार विकसित वित्तीय तंत्र है? समझाइए।

2. Explain the various financial instruments used in Indian capital markets.

भारतीय पूँजी बाजारों में प्रयुक्त विभिन्न वित्तीय उपकरणों को समझाइए।

Or (अथवा)

"Primary markets are of vital importance in Indian Equity markets." Discuss.

"भारतीय समता बाजारों में प्राथमिक बाजारों की मार्मिक महत्ता है।" विवेचना कीजिये।

3. "Non-banking financial companies (NBFCs) have become important part of Indian financial industry currently." Explain.

“नैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ (NBFCs) वर्तमान में भारतीय वित्तीय उद्योग का महत्वपूर्ण भाग बन गई हैं।” व्याख्या कीजिये। 15

Or (अथवा)

- (a) Briefly outline the role of commercial banks in working capital finance in India. Do commercial banks provide finance too?

भारत में कार्यशील वित्तीय पूँजी में व्यावसायिक बैंकों की भूमिका संक्षेप में रेखांकित कीजिए। क्या व्यावसायिक बैंक परियोजना वित्त भी उपलब्ध कराते हैं? 7½

- (b) Give brief summary of life insurance sector in India.

भारत में जीवन बीमा क्षेत्र का संक्षिप्त में सारांश दीजिए। 7½

4. Mutual funds have become important part of Indian financial system during the past few years. Explain.

पिछले कुछ वर्षों से म्यूचुअल फंड भारतीय वित्तीय प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गये हैं। व्याख्या कीजिये। 15

5. Write short notes on any two of the following:

- (a) SEBI
- (b) RBI
- (c) LIC
- (d) IRDA.

P. T. O.

निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:

(a) सेबी (SEBI)

(b) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

(c) जीवन बीमा निगम (LIC)

(c) इरडा (IRDA).

71/2, 71/2